

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, बुध्दिवार, जनवरी 11, 1968/पीए 21, 1889

No. 16] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 11, 1968/PAUSA 21, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 11th January, 1968

S.O. 218.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (xi) of clause (a) of section 2 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby declares the following commodity to be an essential commodity for the purposes of the said Act, namely:—

“Tyres and Tubes of Scooters (including Scooter Rickshaws and Auto-Rickshaws)”.

[No. 26(7)-CS-II/67.]

K. B. LALL, Secy.

